

पलामू: पाटन में पकड़ी गयी नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री, 297 लीटर शराब बरामद

@Newsing Send an email 13/01/2022



Palamu : पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के सिरमा और कुंदरी में छापेमारी कर उत्पाद विभाग और पुलिस ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है. मौके से 297 लीटर नकली विदेशी शराब, बोतल, रैपर, ढक्कन, कार्क सहित अन्य सामान बरामद किये गये हैं. इस सिलसिले में सिरमा गांव से वृंदा साव को गिरफ्तार किया गया है. जबकि इसी गांव के जितेंद्र प्रसाद फरार है. उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बरामद शराब को उत्पाद विभाग के कार्यालय में लाने पर उत्पाद अधीक्षक विमला लकड़ा ने जांच की और कार्रवाई में शामिल टीम की प्रशंसा की.

उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पाटन थाना क्षेत्र के सिरमा और कुंदरी में नकली अंग्रेजी शराब बनायी जा रही है और उसे आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों में उंची कीमत पर खपाई जा रही है. सूचना के आलोक में पाटन थाना प्रभारी प्रकाश कुमार के साथ सिरमा और कुंदरी में छापेमारी की गयी.

सिरमा गांव में सबसे पहले जितेंद्र प्रसाद के घर में छापेमारी की गयी तो वह मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके घर से 54 बोतल सहित तसला में पैक के लिए बनायी कैमिकल्स डालकर तैयार की गयी शराब बरामद हुई.

सिरमा गांव में सबसे पहले जितेंद्र प्रसाद के घर में छापेमारी की गयी तो वह मौके से फरार हो गया, लेकिन उसके घर से 54 बोतल सहित तसला में पैक के लिए बनायी कैमिकल्स डालकर तैयार की गयी शराब बरामद हुई.

इसी तरह वृंदा साव के घर से 45 पेट्टी शराब बरामद की गयी और वृंदा की गिरफ्तारी हुई. कुंदरी में जिस घर में छापेमारी की गयी वहां से कुछ नहीं मिला. ना ही संबंधित घर में कोई था, लेकिन आस पास सर्च करने पर गन्ने के खेत में फेंका हुआ पेट्टी में शराब सहित अन्य सामान बरामद हुये. मकान मालिक का नाम पता किया जा रहा है.

संभावना व्यक्त की जा रही है कि कार्रवाई टीम के मौके पर पहुंचने की भनक लगते ही लोग शराब फेंक कर फरार हो गए.

अवर निरीक्षक ने बताया कि अंग्रेजी शराब की बोतल पर शोरा लिखा हुआ था, जबकि फोर सेल कही का दर्ज नहीं मिला. इस कारण इसे नकली शराब मानी जा रही है.

गिरफ्तार आरोपी वृंदा साव ने पुलिस को बताया कि इसी साल एक जनवरी से उसने नकली शराब बनाने का धंधा शुरू किया था. इसके पहले से ही गांव में इस तरह के कारोबार में दूसरे लोग शामिल थे जिनके शह पर इसने भी यह धंधा शुरू किया.

Source: <https://newswing.com/palamu-fake-english-liquor-factory-caught-in-patan-297-liters-of-liquor-recovered/336489/>